



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

संख्या- 6      राँची, सोमवार, 5 पौष, 1938 (श०)  
26 दिसम्बर, 2016 (ई०)

---

#### नगर विकास एवं आवास विभाग

-----  
अधिसूचना  
21 दिसम्बर, 2016

संख्या-1/स्था०/श०स्था०नि०-24 /2015 न०वि०-6993-- श्री नवल किशोर प्रसाद, कार्यपालक अभियंता, जो नगर विकास एवं आवास विभाग में पदस्थापन की प्रतीक्षा में हैं, की सेवा उनके पैतृक विभाग, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची को वापस की जाती है ।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

झारखण्ड राज्य के राज्यपाल के आदेश से,

**राहुल कुमार,**  
सरकार के अवर सचिव ।